

पोषण माह, 2022

“समय रहते स्वास्थ्य पर करो विचार,
नहीं तो पछताओगे जीवन भर बार- बार”

इस वर्ष पोषण माह (सितम्बर 2022) तीन प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है—

- महिला और स्वास्थ्य
- पोषण भी पढाई भी
- जल संरक्षण और प्रबंधन



तंदुरुस्ती के लिए समझदारी दिखाओ, फल सब्जी अनाज धोकर खाओ

आप सब से अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज नं. 15-20, सैक्टर 4, पंचकूला, दूरभाष नं.: 0172-2560349

dgwcdhry@gmail.com, poshan.wcd@gmail.com

[poshanabhiyaanharyana](https://www.instagram.com/poshanabhiyaanharyana)

[Poshan Abhiyaan - Haryana](https://www.facebook.com/PoshanAbhiyaan-Haryana)

पोषण माह, 2022

“ सेहत की सुरक्षा तो आपकी सुरक्षा,
आपकी सुरक्षा तो परिवार की सुरक्षा ”

इस वर्ष पोषण माह (सितम्बर २०२२) तीन प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है



महिला
और स्वास्थ्य



पोषण भी
पढाई भी




जल संरक्षण
और प्रबंधन


आप सब से अपील है कि इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र में जाकर हिस्सा ले।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज नं. 15-20, सैक्टर 4, पंचकूला, दूरभाष नं.: 0172-2560349

 dgwcdhry@gmail.com, poshan.wcd@gmail.com

 poshanabhiyaanharyana

 Poshan Abhiyaan - Haryana